

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 301] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 15, 1982/आश्विन 23, 1904
No. 301] NEW DELHI, FRIDAY, OCT. 15, 1982/ASVINA 23, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

श्रम और पुनर्वासि मंत्रालय

(श्रम विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर, 1982

सा० का० नि० 612(अ).—मजदूरी संवाय (संशोधन) अधिनियम, 1982 (संख्या 1982 का 38) के खंड 1 के उपखंड (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार 15 अक्टूबर, 1982 वह तारीख निश्चित करती है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम, धारा 13 को छोड़कर, जिसमें मूल अधिनियम (1936 की संख्या 4) में नई धारा 25-क शामिल की गई है, लागू होगा।

[संख्या एम०-31012/5/81-इल्यूसी (पी डब्ल्यू)]

एम० एल० मेहता, अवर सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION

(Department of Labour)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th October, 1982

G.S.R. 612(E).—In exercise of powers conferred in sub-section (2) of Section 1 of the Payment of Wages (Amendment) Act, 1982 (No. 38 of 1982), the Central Government hereby appoints the 15th day of October, 1982 as the date on which the said Act, except Section 13 thereof incorporating therein a new section 25A to the principal Act (No. 4 of 1936), shall come into force.

[No. S-31012/5/81-WC (PW)]

M. L. MEHTA, Under Secy.